

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29072024-255872
SG-DL-E-29072024-255872असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196]	दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2024/ श्रावण 4, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 119
No. 196]	DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2024/ SHRAVANA 4, 1946	[N. C. T. D. No. 119

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIविकास विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 18 जुलाई, 2024

फा. सं. ३१(१) ए.एच.डी./२००६/०७/ गलैण्डर्स / भाग-३ /1931.—जबकि, निदेशक, (आई. सी.ए.आर.) राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार, गलैण्डर्स के लिए राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी / जहांगीरपुरी, मध्य राजस्व जिले से तीन अश्वों के नमूने, गलैण्डर्स रोग के सम्बंध में कॉम्पलीमेंट फिक्सेशन टेस्ट के द्वारा पॉजिटिव पाये गये हैं। गलैण्डर्स पॉजिटिव पाये गये अश्व आजादपुर सब्जी मंडी, उपकेन्द्रो पर स्थित हैं;

और जबकि गलैण्डर्स अनुसूचित 'पशुओं के सांसर्गिक एवं संक्रामक रोगों के रोग है जो कि क्रमांक ११ के श्रेणी (डी) (अश्वों के रोग) निवारण और नियंत्रण अधिनियम, २००६ के अंतर्गत आता है;

और जबकि गलैण्डर्स पशुओं तथा मनुष्यों को प्रभावित करने वाला जुनोटिक रोग है।

अतः अब "पशुओं के सांसर्गिक एवं संक्रामक रोगों के निवारण और नियंत्रण अधिनियम, २००६ की धारा ६ की उपधारा (१) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इसके साथ ही भारत सरकार, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का मंत्राक संख्या का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित रोगों से बचाव, नियंत्रण एवं उन्मूलन करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी / जहांगीरपुरी, मध्य राजस्व जिले के ०५ किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र जो कि नाभिक / संक्रमण का केन्द्र और / या गलैण्डर्स रोग की पुष्टि के मामले में संभावित महामारी से जुड़ी हुई कड़ी के सम्बंध में नियंत्रित क्षेत्र घोषित करती है। पहले मामले की घटना के ०३ सप्ताह के भीतर अधिसूचित क्षेत्र के १००% अश्वों की जाँच की जानी है और अगले ०२ महीनों के अन्दर २१ से ३० दिनों के अन्तराल में दो बार नमूने लिये जायेंगे अधिसूचित क्षेत्र के बाहर २५ किमी (५-२५ किमी) के दायरे तक २५% अश्वों की ०३ महीनों में दो बार जाँच की जायेगी। जोखिम के आकलन और अश्वों की गमनागमन के आधार पर २५ किमी क्षेत्र के बाहर शारिरिक जांच / सेरोसर्वेक्षण किया जायेगा। आजादपुर सब्जी मंडी / जहांगीरपुरी, मध्य राजस्व जिले के पांच किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र, पशु पालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार की कार्ययोजना एवं दिशा निर्देशानुसार सघन निगरानी में रहेंगे। दिल्ली में इस अनुसूचित रोग की घटना को संज्ञान में रखते हुए, दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी / जहांगीरपुरी, मध्य राजस्व जिले के ०५ किमी की परीधी से बाहर एवं बाहर से दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी / जहांगीरपुरी, मध्य राजस्व जिले में, अश्व वर्ग के गमनागमन को, अंतिम पॉजिटिव अश्व की कलिंग से तीन माह की अवधि तक प्रतिबंधित किया जाता है। तीन माह पश्चात्, शारिरिक जांच एवं सीरोलोजिकल जांच के परिणामों के आधार पर सरकार अश्वों के आगे के गमनागमन पर रोक या ढील का निर्णय करेगी।

- (२) दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी / जहांगीरपुरी, मध्य राजस्व जिले के ०५ किमी की परीधी में आने वाले सभी अश्व सम्बंधित संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अश्वों के नमूने, गलैण्डर्स रोग की जांच हेतु आई.सी.ए.आर. - राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार को भेजना सुनिश्चित करें। भेजे गए नमूनों के सम्बंध में तथा उनके जांच के परिणामों की जानकारी निदेशक, पशुपालन इकाई, विकास विभाग, दिल्ली सरकार को तुरंत अवगत कराएँ।
- (३) इस सम्बंध में, पशु पालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- (४) पशुपालन इकाई विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी / जहांगीरपुरी, मध्य राजस्व जिले के ०५ किमी की परीधी में कार्यरत सभी पशु चिकित्सा अधिकारियों को अधिकृत और निर्देशित किया जाता है कि वे गलैण्डर्स रोग की निगरानी हेतु अपने सम्बंधित क्षेत्रों में से सभी अश्व वर्ग के नमूने, संक्रमित पशुओं की कलिंग, शव का उचित निपटान, संक्रमण / बिमारी के प्रसार की रोकथाम और इसका उन्मूलन 'पशुओं के सांसर्गिक एवं संक्रामक रोगों के निवारण और नियंत्रण अधिनियम, २००६' के संबंधित प्रावधान और इसके साथ समय-समय पर जारी राष्ट्रीय कार्य योजना, भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की कार्य योजना / दिशानिर्देश के अनुसार कार्यवाही करे।
- (५) सभी व्यक्ति, जो दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी / जहांगीरपुरी, मध्य राजस्व जिले के ०५ किमी के परीधी में अश्व वर्ग के मालिक हैं, उनको निर्देशित किया जाता है कि वे, गलैण्डर्स के सम्बंध में अपने अश्व वर्ग की जाँच, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की पशुपालन इकाई के निकटवर्ती पशु चिकित्सालय / डिस्पेंसरी के माध्यम से कराएं।

आदेश से,

माननीय उपराज्यपाल
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

डा. राकेश सिंह, निदेशक, पशुपालन विभाग

DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 18th July, 2024

F. No. 31(1)AHD/2006/07/Glanders/PartIII/1931.—Whereas, the Director, ICAR- National Research Centre on Equines (NRCE), Hisar, the National Referral Laboratory for Glanders, has informed that three horses from Azadpur Subzi Mandi / Jahangirpuri Central Revenue District of Govt. of NCT of Delhi are found positive for Glanders by Complement Fixation Test (CFT). The Horses found positive for Glanders are located at the epicentre Azadpur Mandi;

And Whereas, Glanders is a Scheduled disease (item No.11 under the category of (d) (equine diseases) under 'The Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009';

And whereas, Glanders is a zoonotic disease affecting animals and human beings;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 6 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009, read with Government of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying letter No. K-11053/57/2019-LH dated 29.07.2020, with the object of preventing, controlling and eradicating the scheduled disease that is affecting equines, Govt. of National Capital Territory of Delhi declares 5 Km. area around Azadpur Subzi Mandi / Jahangirpuri, Central Revenue District, the nucleus / focus of infection and or the possible epidemiological link to a confirmed case of Glanders, a controlled area, in respect of Glanders. Further, 100% equids of the notified area shall be screened within 3 weeks of the incidence of the first case and repeated twice within the next 2 months with samples taken 21-30 days apart. 25% equids shall be screened beyond the notified area of up to 25 km (5-25 km) twice within 3 months. Beyond 25 kms, the physical /sero-surveillance will be taken based on the risk assessment and movement of equines. Five kilometres radius of Azadpur Subzi Mandi / Jahangirpuri, Central Revenue District of Delhi will be intensively monitored as per the action plan and guidelines of the Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India. In view of presence of this scheduled disease in Azadpur Subzi Mandi / Jahangirpuri, Central Revenue District of Delhi, equine movement to and from 5 Km. area around Azadpur Mandi / Jahangirpuri, Central Revenue District of Delhi, are hereby restricted for a period of three months with effect from the date of last culling of the positive reactor equine. After three months, based on physical examination and serological test results, further restriction or ease on the movement of equines will be decided by the Government.

- (2) All organizations within 5 Km. area around Azadpur Subzi Mandi / Jahangirpuri, Central Revenue District of Delhi having equines are hereby directed to get their equines tested for Glanders from ICAR- National Research Centre on Equines, Hisar, and communicate the details of samples sent and the results so obtained, to the Director, Animal Husbandry Unit, Development Department, Government of National Capital Territory of Delhi immediately.
- (3) Further action will be taken as per the National Action Plan and Guidelines issued by the Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India from time to time.
- (4) All Veterinary Officers of Animal Husbandry Unit of Government of National Capital Territory of Delhi working in 5 Km. area around Azadpur Subzi Mandi / Jahangirpuri, Central Revenue District of Delhi are hereby authorized and are directed to undertake measures for surveillance of the disease, collection of the test samples from all the equines in their respective areas, culling of animals found positive with the infection, proper disposal of carcass, prevention of spread of the infection/disease and its eradication as per the respective provisions of the 'The Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009' as well as per the National Action plan of Government of India and Action Plan/ Guidelines of Government of National Capital Territory of Delhi issued from time to time.
- (5) All individuals owning equines in the area of 5 Km. around Azadpur Subzi Mandi /Jahangirpuri, Central Revenue District of Delhi must get their equines tested for Glanders, through the nearest Veterinary Hospital/ Dispensary of the Animal Husbandry Unit of Government of National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of Hon'ble Lt. Governor,
National Capital Territory of Delhi

Dr. RAKESH SINGH, Director, Animal Husbandry